

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 24.02.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-26 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

06 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना वजीरगंज पुलिस ने 03, थाना छपिया पुलिस ने 01, थाना खरगूपुर पुलिस ने 01, थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अर्जुन पुत्र बाबूलाल साकिन खिरिया थाना वजीरगंज गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 103/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. ननकने कश्यप पुत्र रामछत्तर कश्यप निवासी ग्राम रामनगर झिन्ना थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 57/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 24.02.2023

चोरी करने का 02 आरोपी गिरफ्तार, चोरी का 02 बोरी में 97 किग्रा गेहूँ व 01 बोरी में 46 किग्रा चावल

बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में थाना कोनगर गोण्डा पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0स0 168/2023 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आये चोरी करने के अभियुक्तगण 01. रामबाबू पटेल 02. पीयूष उर्फ प्रत्युष पाण्डेय को चोरी के गेहूँ व चावल के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्तगण द्वारा नवीन गल्ला मण्डी गोण्डा में घुसकर गेहूँ, चावल, सरसों आदि की चोरी किये थे। जिसके सम्बन्ध में सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समित गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कराया था। घटना में संलिप्त 01 बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जुवेनाइल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. राम बाबू पटेल पुत्र स्व0 दुखी राम निवासी वरना कल्याणगढ़ थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
02. पीयूष उर्फ प्रत्युष पाण्डेय पुत्र दिनेश चन्द्र निवासी जानकीनगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 168/23 धारा 379, 411 भादवि0 थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा।

बरामदगी-

01. 02 बोरे में 97 कि0ग्रा0 गेहूँ
02. 01 प्लास्टिक बोरी में 46 कि0ग्रा0 चावल

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 बब्बन सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 24.02.2023

‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत प्रभावी पैरवी से अवैध शराब बनाने के आरोपी अभियुक्त को हुई 01 वर्ष 07 माह का साधारण कारावास व रूपए 3000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप अवैध शराब बनाने के आरोपी अभियुक्त को 01 वर्ष 07 माह का साधारण कारावास व रु0 3000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना नवाबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा अपमिश्रित कच्ची शराब बनाया जा रहा था जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्त शिवनाथ यादव पुत्र रामतीरथ निवासी दुर्गागंज माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनीटरिंग सेल व थाना नवाबगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी दिनेश यादव के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 01 वर्ष 07 माह का साधारण कारावास व रूपये 3000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. शिवनाथ यादव पुत्र रामतीरथ निवासी दुर्गागंज माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 52/2019, धारा 60(2) आबकारी अधि0 व 272 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।